



YOGESH KUMAR

12 Mar 1988

04:25 PM

Delhi

Model: Web-MyKundli

Order No: 121267101

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग _____: पुल्लिंग
जन्म तिथि _____: 12/03/1988
दिन _____: शनिवार
जन्म समय _____: 16:25:14 घंटे
इष्ट _____: 24:36:53 घटी
स्थान _____: Delhi
राज्य _____: Delhi
देश _____: India

अक्षांश _____: 28:39:13 उत्तर
रेखांश _____: 77:13:44 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:21:05 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 16:04:09 घंटे
वेलान्तर _____: -00:09:45 घंटे
साम्पातिक काल _____: 03:25:22 घंटे
सूर्योदय _____: 06:34:28 घंटे
सूर्यास्त _____: 18:27:36 घंटे
दिनमान _____: 11:53:07 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: उत्तरायण
सूर्य स्थिति(गोल) _____: दक्षिण
ऋतु _____: वसन्त
सूर्य के अंश _____: 28:23:35 कुम्भ
लग्न के अंश _____: 02:31:40 सिंह

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: सिंह - सूर्य
राशि-स्वामी _____: धनु - गुरु
नक्षत्र-चरण _____: मूल - 4
नक्षत्र स्वामी _____: केतु
योग _____: व्यतिपात
करण _____: गर
गण _____: राक्षस
योनि _____: श्वान
नाड़ी _____: आद्य
वर्ण _____: क्षत्रिय
वश्य _____: मानव
वर्ग _____: मूषक
युँजा _____: अन्त्य
हंसक _____: अग्नि
जन्म नामाक्षर _____: भी-भीमा
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: रजत - ताम्र
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: मीन

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1909	फाल्गुन	22
पंजाबी	संवत : 2044	फाल्गुन	29
बंगाली	सन् : 1394	फाल्गुन	28
तमिल	संवत : 2044	मासी	29
केरल	कोल्लम : 1163	कुंभम	29
नेपाली	संवत : 2044	फाल्गुन	29
चैत्रादि	संवत : 2044	चैत्र	कृष्ण 9
कार्तिकादि	संवत : 2044	फाल्गुन	कृष्ण 9

पंचांग


सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 9
तिथि समाप्ति काल _____ : 26:00:33
जन्म तिथि _____ : 9
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : मूल
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 20:06:48 घंटे
जन्म योग _____ : मूल
सूर्योदय कालीन योग _____ : व्यतिपात
योग समाप्ति काल _____ : 27:43:39 घंटे
जन्म योग _____ : व्यतिपात
सूर्योदय कालीन करण _____ : तैतिल
करण समाप्ति काल _____ : 14:58:01 घंटे
जन्म करण _____ : गर
भयात _____ : 48:30:16
भभोग _____ : 57:44:13
भोग्य दशा काल _____ : केतु 1 वर्ष 1 मा 17 दि

घात चक्र


मास _____ : श्रावण
तिथि _____ : 3-8-13
दिन _____ : शुक्रवार
नक्षत्र _____ : भरणी
योग _____ : वज्र
करण _____ : तैतिल
प्रहर _____ : 1
वर्ग _____ : मार्जार
लग्न _____ : धनु
सूर्य _____ : तुला
चन्द्र _____ : मीन
मंगल _____ : वृश्चिक
बुध _____ : सिंह
गुरु _____ : धनु
शुक्र _____ : कुम्भ
शनि _____ : कन्या
राहु _____ : कुम्भ

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुण्डली

	शु गु		
रा सू बु			
			के ल
श चं मं			

लग्न कुण्डली

	शु गु		रा सू बु
ल के		चं मं श	

विंशोत्तरी
केतु 1वर्ष 1मा 17दि
केतु

12/03/1988

01/05/2102

केतु	29/04/1989
शुक्र	29/04/2009
सूर्य	30/04/2015
चन्द्र	29/04/2025
मंगल	29/04/2032
राहु	30/04/2050
गुरु	30/04/2066
शनि	29/04/2085
बुध	01/05/2102

योगिनी

उल्का 0वर्ष 11मा 19दि
सिद्धा

01/03/2025

01/03/2032

सिद्धा	12/07/2026
संकटा	31/01/2028
मंगला	11/04/2028
पिंगला	31/08/2028
धान्या	01/04/2029
भामरी	10/01/2030
भद्रिका	31/12/2030
उल्का	01/03/2032


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			सिंह	02:31:40	310:58:47	मघा	1	10	सूर्य	केतु	शुक्र	---
सूर्य			कुंभ	28:23:35	00:59:52	पू०भाद्रपद	3	25	शनि	गुरु	शुक्र	शत्रु राशि
चंद्र			धनु	11:10:42	13:58:36	मूल	4	19	गुरु	केतु	शनि	सम राशि
मंगल			धनु	19:08:33	00:40:31	पूर्वाषाढा	2	20	गुरु	शुक्र	राहु	मित्र राशि
बुध			कुंभ	01:24:53	01:10:06	धनिष्ठा	3	23	शनि	मंगल	बुध	सम राशि
गुरु			मेष	07:06:25	00:12:46	अश्विनी	3	1	मंगल	केतु	राहु	मित्र राशि
शुक्र			मेष	13:00:23	01:06:03	अश्विनी	4	1	मंगल	केतु	बुध	सम राशि
शनि			धनु	08:08:37	00:02:52	मूल	3	19	गुरु	केतु	गुरु	सम राशि
राहु			कुंभ	29:24:09	00:00:10	पू०भाद्रपद	3	25	शनि	गुरु	सूर्य	मित्र राशि
केतु			सिंह	29:24:09	00:00:10	उ०फाल्गुनी	1	12	सूर्य	सूर्य	राहु	शत्रु राशि
हर्ष			धनु	07:07:05	00:01:13	मूल	3	19	गुरु	केतु	राहु	---
नेप			धनु	16:15:07	00:00:59	पूर्वाषाढा	1	20	गुरु	शुक्र	चंद्र	---
प्लूटो	व		तुला	18:41:00	00:00:54	स्वाति	4	15	शुक्र	राहु	चंद्र	---
दशम भाव			वृष	00:01:57	--	कृतिका	--	3	शुक्र	सूर्य	राहु	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:41:34


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	कर्क 17:06:43	सिंह 02:31:40
2	सिंह 17:06:43	कन्या 01:41:45
3	कन्या 16:16:48	तुला 00:51:51
4	तुला 15:26:54	वृश्चिक 00:01:57
5	वृश्चिक 15:26:54	धनु 00:51:51
6	धनु 16:16:48	मकर 01:41:45
7	मकर 17:06:43	कुम्भ 02:31:40
8	कुम्भ 17:06:43	मीन 01:41:45
9	मीन 16:16:48	मेष 00:51:51
10	मेष 15:26:54	वृष 00:01:57
11	वृष 15:26:54	मिथुन 00:51:51
12	मिथुन 16:16:48	कर्क 01:41:45


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	सिंह	02:31:40
2	सिंह	28:09:51
3	कन्या	27:44:28
4	वृश्चिक	00:01:57
5	धनु	02:32:38
6	मकर	03:32:34
7	कुम्भ	02:31:40
8	कुम्भ	28:09:51
9	मीन	27:44:28
10	वृष	00:01:57
11	मिथुन	02:32:38
12	कर्क	03:32:34

तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती
अश्विनी	भरणी	कृत्तिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा
मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा

चलित कुंडली



विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : केतु 1 वर्ष 1 मास 17 दिन

केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष
12/03/1988	29/04/1989	29/04/2009	30/04/2015	29/04/2025
29/04/1989	29/04/2009	30/04/2015	29/04/2025	29/04/2032
00/00/0000	शुक्र 29/08/1992	सूर्य 17/08/2009	चंद्र 28/02/2016	मंगल 26/09/2025
00/00/0000	सूर्य 29/08/1993	चंद्र 16/02/2010	मंगल 28/09/2016	राहु 14/10/2026
00/00/0000	चंद्र 30/04/1995	मंगल 23/06/2010	राहु 30/03/2018	गुरु 20/09/2027
00/00/0000	मंगल 29/06/1996	राहु 18/05/2011	गुरु 30/07/2019	शनि 29/10/2028
00/00/0000	राहु 30/06/1999	गुरु 05/03/2012	शनि 28/02/2021	बुध 26/10/2029
00/00/0000	गुरु 28/02/2002	शनि 15/02/2013	बुध 30/07/2022	केतु 24/03/2030
12/03/1988	शनि 29/04/2005	बुध 23/12/2013	केतु 28/02/2023	शुक्र 24/05/2031
शनि 02/05/1988	बुध 28/02/2008	केतु 30/04/2014	शुक्र 29/10/2024	सूर्य 29/09/2031
बुध 29/04/1989	केतु 29/04/2009	शुक्र 30/04/2015	सूर्य 29/04/2025	चंद्र 29/04/2032

राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष
29/04/2032	30/04/2050	30/04/2066	29/04/2085	01/05/2102
30/04/2050	30/04/2066	29/04/2085	01/05/2102	00/00/0000
राहु 10/01/2035	गुरु 17/06/2052	शनि 02/05/2069	बुध 26/09/2087	केतु 27/09/2102
गुरु 05/06/2037	शनि 29/12/2054	बुध 11/01/2072	केतु 22/09/2088	शुक्र 27/11/2103
शनि 11/04/2040	बुध 05/04/2057	केतु 18/02/2073	शुक्र 24/07/2091	सूर्य 03/04/2104
बुध 29/10/2042	केतु 12/03/2058	शुक्र 20/04/2076	सूर्य 30/05/2092	चंद्र 02/11/2104
केतु 17/11/2043	शुक्र 10/11/2060	सूर्य 02/04/2077	चंद्र 29/10/2093	मंगल 31/03/2105
शुक्र 17/11/2046	सूर्य 29/08/2061	चंद्र 01/11/2078	मंगल 26/10/2094	राहु 18/04/2106
सूर्य 11/10/2047	चंद्र 29/12/2062	मंगल 11/12/2079	राहु 15/05/2097	गुरु 25/03/2107
चंद्र 11/04/2049	मंगल 05/12/2063	राहु 17/10/2082	गुरु 21/08/2099	शनि 13/03/2108
मंगल 30/04/2050	राहु 30/04/2066	गुरु 29/04/2085	शनि 01/05/2102	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल केतु 1 वर्ष 1 मा 13 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

मंगल - राहु 26/09/2025 14/10/2026	मंगल - गुरु 14/10/2026 20/09/2027	मंगल - शनि 20/09/2027 29/10/2028	मंगल - बुध 29/10/2028 26/10/2029	मंगल - केतु 26/10/2029 24/03/2030
राहु 22/11/2025 गुरु 12/01/2026 शनि 14/03/2026 बुध 07/05/2026 केतु 30/05/2026 शुक्र 02/08/2026 सूर्य 21/08/2026 चंद्र 22/09/2026 मंगल 14/10/2026	गुरु 29/11/2026 शनि 22/01/2027 बुध 11/03/2027 केतु 31/03/2027 शुक्र 26/05/2027 सूर्य 13/06/2027 चंद्र 11/07/2027 मंगल 31/07/2027 राहु 20/09/2027	शनि 23/11/2027 बुध 19/01/2028 केतु 12/02/2028 शुक्र 20/04/2028 सूर्य 10/05/2028 चंद्र 12/06/2028 मंगल 06/07/2028 राहु 05/09/2028 गुरु 29/10/2028	बुध 19/12/2028 केतु 09/01/2029 शुक्र 11/03/2029 सूर्य 29/03/2029 चंद्र 28/04/2029 मंगल 19/05/2029 राहु 12/07/2029 गुरु 30/08/2029 शनि 26/10/2029	केतु 04/11/2029 शुक्र 29/11/2029 सूर्य 06/12/2029 चंद्र 18/12/2029 मंगल 27/12/2029 राहु 19/01/2030 गुरु 07/02/2030 शनि 03/03/2030 बुध 24/03/2030
मंगल - शुक्र 24/03/2030 24/05/2031	मंगल - सूर्य 24/05/2031 29/09/2031	मंगल - चंद्र 29/09/2031 29/04/2032	राहु - राहु 29/04/2032 10/01/2035	राहु - गुरु 10/01/2035 05/06/2037
शुक्र 03/06/2030 सूर्य 24/06/2030 चंद्र 30/07/2030 मंगल 24/08/2030 राहु 27/10/2030 गुरु 23/12/2030 शनि 28/02/2031 बुध 29/04/2031 केतु 24/05/2031	सूर्य 31/05/2031 चंद्र 10/06/2031 मंगल 18/06/2031 राहु 07/07/2031 गुरु 24/07/2031 शनि 13/08/2031 बुध 31/08/2031 केतु 08/09/2031 शुक्र 29/09/2031	चंद्र 17/10/2031 मंगल 29/10/2031 राहु 30/11/2031 गुरु 29/12/2031 शनि 31/01/2032 बुध 02/03/2032 केतु 14/03/2032 शुक्र 19/04/2032 सूर्य 29/04/2032	राहु 24/09/2032 गुरु 03/02/2033 शनि 09/07/2033 बुध 25/11/2033 केतु 22/01/2034 शुक्र 05/07/2034 सूर्य 24/08/2034 चंद्र 14/11/2034 मंगल 10/01/2035	गुरु 07/05/2035 शनि 23/09/2035 बुध 25/01/2036 केतु 16/03/2036 शुक्र 09/08/2036 सूर्य 22/09/2036 चंद्र 04/12/2036 मंगल 24/01/2037 राहु 05/06/2037
राहु - शनि 05/06/2037 11/04/2040	राहु - बुध 11/04/2040 29/10/2042	राहु - केतु 29/10/2042 17/11/2043	राहु - शुक्र 17/11/2043 17/11/2046	राहु - सूर्य 17/11/2046 11/10/2047
शनि 17/11/2037 बुध 13/04/2038 केतु 13/06/2038 शुक्र 03/12/2038 सूर्य 24/01/2039 चंद्र 21/04/2039 मंगल 21/06/2039 राहु 24/11/2039 गुरु 11/04/2040	बुध 21/08/2040 केतु 14/10/2040 शुक्र 18/03/2041 सूर्य 04/05/2041 चंद्र 21/07/2041 मंगल 13/09/2041 राहु 31/01/2042 गुरु 04/06/2042 शनि 29/10/2042	केतु 21/11/2042 शुक्र 24/01/2043 सूर्य 12/02/2043 चंद्र 16/03/2043 मंगल 07/04/2043 राहु 04/06/2043 गुरु 25/07/2043 शनि 23/09/2043 बुध 17/11/2043	शुक्र 17/05/2044 सूर्य 11/07/2044 चंद्र 11/10/2044 मंगल 13/12/2044 राहु 27/05/2045 गुरु 20/10/2045 शनि 11/04/2046 बुध 14/09/2046 केतु 17/11/2046	सूर्य 03/12/2046 चंद्र 30/12/2046 मंगल 19/01/2047 राहु 09/03/2047 गुरु 22/04/2047 शनि 13/06/2047 बुध 29/07/2047 केतु 17/08/2047 शुक्र 11/10/2047

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।


मूलांक	3
भाग्यांक	5
मित्र अंक	3, 5, 7, 9
शत्रु अंक	1, 4, 8
शुभ वर्ष	21,30,39,48,57
शुभ दिन	मंगल, रवि, गुरु
शुभ ग्रह	मंगल, सूर्य, गुरु
मित्र राशि	मीन, सिंह
मित्र लग्न	वृश्चिक, मेष, मिथुन
अनुकूल देवता	हनुमान
शुभ रत्न	माणिक्य
शुभ उपरत्न	लाल हकीक, लाल तुर्मली
भाग्य रत्न	मूंगा
शुभ धातु	ताम्र
शुभ रंग	नारंगी
शुभ दिशा	पूर्व
शुभ समय	सूर्योदय
दान पदार्थ	मूंगा, केसर, रक्तचन्दन
दान अन्न	गेहूँ
दान द्रव्य	घी

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
मूंगा	मंगल	97%	सन्तति सुख, भाग्योदय, सुख
माणिक्य	सूर्य	81%	दम्पति, स्वास्थ्य
हीरा	शुक्र	78%	भाग्योदय, व्यावसायिक उन्नति, पराक्रम
पुखराज	गुरु	72%	भाग्योदय, सन्तति सुख, दुर्घटना से बचाव
गोमेद	राहु	69%	दम्पति, सन्तति सुख
लहसुनिया	केतु	67%	स्वास्थ्य, दम्पति
पन्ना	बुध	66%	दम्पति, धनार्जन, धन
मोती	चंद्र	53%	सन्तति सुख, कम खर्च
नीलम	शनि	19%	सन्तति कष्ट, शत्रु व रोग, दाम्पत्य कष्ट



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
केतु	29/04/1989	69%	31%	100%	66%	72%	84%	0%	56%	80%
शुक्र	29/04/2009	69%	31%	97%	72%	72%	91%	31%	75%	73%
सूर्य	30/04/2015	94%	59%	100%	66%	78%	66%	0%	56%	55%
चंद्र	29/04/2025	88%	66%	97%	72%	72%	78%	19%	56%	55%
मंगल	29/04/2032	88%	59%	100%	53%	78%	78%	19%	56%	73%
राहु	30/04/2050	69%	31%	84%	66%	72%	84%	31%	81%	55%
गुरु	30/04/2066	88%	59%	100%	53%	84%	66%	19%	69%	67%
शनि	29/04/2085	69%	31%	84%	72%	72%	84%	44%	75%	55%
बुध	01/05/2102	88%	31%	97%	78%	72%	84%	19%	69%	67%

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	12/03/1988-21/03/1990	20/06/1990-15/12/1990	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	21/03/1990-20/06/1990	15/12/1990-05/03/1993	15/10/1993-10/11/1993
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	02/06/1995-10/08/1995	16/02/1996-17/04/1998	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	06/09/2004-13/01/2005	26/05/2005-01/11/2006	10/01/2007-16/07/2007
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	02/11/2014-26/01/2017	21/06/2017-26/10/2017	-----

द्वितीय चक्र:

साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	26/01/2017-21/06/2017	26/10/2017-24/01/2020	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	24/01/2020-29/04/2022	12/07/2022-17/01/2023	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	29/03/2025-03/06/2027	20/10/2027-23/02/2028	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	13/07/2034-27/08/2036	-----	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	11/12/2043-23/06/2044	30/08/2044-08/12/2046	-----

तृतीय चक्र:

साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	08/12/2046-06/03/2049	10/07/2049-04/12/2049	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	06/03/2049-10/07/2049	04/12/2049-25/02/2052	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	14/05/2054-02/09/2054	05/02/2055-07/04/2057	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	24/08/2063-06/02/2064	09/05/2064-13/10/2065	03/02/2066-03/07/2066
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	05/02/2073-31/03/2073	23/10/2073-16/01/2076	11/07/2076-11/10/2076

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार

साढ़ेसाती द्वितीय ढैया
साढ़ेसाती तृतीय ढैया
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया
अष्टम स्थानस्थ ढैया
साढ़ेसाती प्रथम ढैया

फल

शुभ
शुभ
अशुभ
अशुभ
अशुभ

क्षेत्र

सन्तति
शत्रु व रोग मुक्ति
दुर्घटना से बचाव
व्यय
सुख हानि

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डेंट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपकी जन्म कुंडली में मंगल चन्द्रमा के साथ है। अतः आप एक मांगलिक पुरुष हैं परन्तु चन्द्र लग्न से मंगल का दोष अधिक नहीं माना जाता है अतः इसके प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य सामान्यतया अच्छा रहेगा तथा मानसिक रूप से भी आप सन्तुष्टि की अनुभूति करेंगे परन्तु स्वभाव में किंचित उग्रता का भाव उत्पन्न रहेगा। साथ ही मंगल के प्रभाव से आपके विवाह में किंचित मात्रा में विलम्ब भी हो सकता है तथा यदा कदा विवाह संबंधी वार्तालापों में व्यवधान आएंगे परन्तु अन्ततोगत्वा आपको सफलता मिलेगी। पत्नी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा तथा मानसिक शान्ति भी बनी रहेगी।

चन्द्रमा के साथ मंगल की युति होने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा साथ ही चतुर्थ भाव पर दृष्टि के कारण जीवन में आप भौतिक सुख संसाधन तथा जायदाद आदि भी प्राप्त करेंगे यद्यपि इसमें आपको थोड़ा परिश्रम अवश्य करना पड़ेगा। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वभाव से वे तेज हो सकती हैं परन्तु इसमें कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि के प्रभाव से आप परिश्रम एवं पराक्रम से अपने सांसारिक महत्व के शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करेंगे तथा व्यवधानों एवं समस्याओं का दृढ़ता पूर्वक सामना करके उनका समाधान करेंगे।

अतः अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखमय एवं अनुकूल बनाने के लिए आपको किसी उचित मांगलिक कन्या से विवाह करना चाहिए जिससे आपका मांगलिक दोष भंग हो जाय। इसके लिए कन्या की कुंडली में मांगलिक भावों अर्थात् प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में शनि तथा राहु जैसे पापग्रहों की स्थिति होनी चाहिए। इस दोष के भंग होने पर आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा इच्छित भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति होगी साथ ही चल एवं अचल सम्पत्ति के भी स्वामी बनेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय एवं प्रसन्नता पूर्वक

व्यतीत होगा तथा धनऐश्वर्य से आप युक्त रहेंगे ।



कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग ।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं। काल सर्प योग के उपाय इन कष्टों से राहत के लिये आवश्यक हो जाते हैं।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मपत्रिका में काल सर्प योग विद्यमान नहीं है। अतः आपको इस योग के लिए शांति आदि की आवश्यकता नहीं है एवं आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें। मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें। यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- चन्द्र पंचम भाव में स्थित है तथा उस पर शनि का प्रभाव है।
- सूर्य पर राहु और शनि दोनों का प्रभाव है।
- नवम भाव के स्वामी पर शनि का प्रभाव है।
- लग्नेश शनि व राहु दोनों से प्रभावित है।

आपकी कुण्डली में सूर्य, चन्द्र और मंगल के कारण पितृदोष है।

आपकी कुण्डली में सूर्य पितृदोष कारक ग्रह है अतः पिता के पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ गायत्री जप, सूर्योपासना, आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ, आक की समिधा से हवन करें। रविवार को गाय या बैल को गेहूँ और गुड़ खिलाएं।

आपकी कुण्डली में चंद्र पितृदोष कारक ग्रह है अतः माता के पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ सोमवार को प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल चढ़ाएं साथ ही शिव पंचाक्षरी “ॐ नमः शिवाय” का मंत्र जाप करें। दुर्गा, शिव या पार्थिवेश्वर महादेव का पूजन करें। ढाक की समिधा व जड़ी-बूटियों से हवन करे तथा गौ-दान

करें।

आपकी कुंडली में मंगल पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पुरुष सदस्य द्वारा क्रोधवश किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ आपको नौकर, छोटे भाईयों को दान देना चाहिए।

आपकी कुंडली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

ग्रह फल

सूर्य

सप्तम भाव में सूर्य हो तो जातक चिन्तायुक्त राज्य से अपमानित, आत्मरत, कठोर, स्वाभिमानी एवं विवाहित जीवन दुःखी होता है।

कुम्भ राशि में रवि हो तो जातक स्थिरचित्त, स्वार्थी, कार्यदक्ष, कोधी, दुःखी, निर्धन, अच्छा ज्योतिषी एवं मध्य अवस्था के पश्चात् सन्यास लेने वाला होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य सप्तम भाव में स्थित है अतः आपके पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं शारीरिक कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। उनकी आयु भी लम्बी होगी तथा आपके प्रति उनके मन में पूर्ण वात्सल्य का भाव रहेगा। विविध प्रकार से धनार्जन करने में वे सफल रहेंगे तथा समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपको अपना हार्दिक सहयोग देते रहेंगे। साथ ही आपके विवाह सम्पन्न करने में उनका पूर्ण सहयोग रहेगा एवं आप उनके विश्वास पात्र भी रहेंगे।

आप भी उनका पूर्ण सम्मान करेंगे तथा उनकी आज्ञा पालन करने के लिए नित्य तत्पर रहेंगे। आपके आपसी संबंध मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा मतभेदों के उत्पन्न होने के कारण संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। फिर भी आप नित्य उनकी सेवा तथा वांछित सहायता एवं सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे एवं अपनी ओर से उन्हें किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं होने देंगे।

चन्द्र

पंचमभाव में चन्द्रमा हो तो जातक सदाचारी, कन्यासन्ततिवान्, चंचल सट्टे से धन कमानेवाला एवं क्षमाशील होता है।

धनु राशि में चन्द्रमा हो तो जातक वक्त, सुन्दर, शिल्पज्ञ, शत्रुविनाशक उच्च बौद्धिक स्तर वाला, सुखी विवाहित जीवन, विरासत में धन सम्पत्ति पाने वाला, साहित्य के प्रति रुचि का दिखावा करने वाला एवं लेखक होता है।

आपके जन्म काल में चन्द्रमा की स्थिति पंचम भाव में है। अतः आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं आयु भी दीर्घ होगी। आपके शुभ प्रभाव से वे धन सम्पत्ति आदि को भी प्राप्त करेंगी तथा इससे प्रायः युक्त ही रहेंगी। साथ ही जीवन में आपको हमेशा कला, नीति, विद्या आदि के लिए प्रोत्साहित करेंगी एवं यत्नपूर्वक इसमें अपना सहयोग भी प्रदान करेंगी। आप की संतति से भी उनका प्रेम रहेगा एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको सहयोग प्रदान करेंगी।

आप भी उनके प्रिय रहेंगे तथा उनकी आज्ञापालन करने के लिए तत्पर रहेंगे। साथ ही आपके आपसी संबंध भी मधुरता से युक्त रहेंगे एवं आपसी भेदभाव भी अल्प मात्रा में होंगे। जीवन में आप यत्नपूर्वक उनकी सेवा तथा अन्य वांछित सहयोग एवं सहायता प्रदान करने के

लिए भी सर्वदा उद्यत रहेंगे इस प्रकार आप आपस में प्रसन्नतापूर्वक रहेंगे।

मंगल

पंचम भाव में मंगल हो तो जातक बुद्धिमान्, चंचल, गुप्तरोगी, कृशशरीरी, रोगी, विशेष रूप से उदररोगी, व्यसनी, कपटी, उबुद्धि एवं सन्तति-क्लेश युक्त होता है।

धनु राशि में मंगल हो तो जातक चतुर राजनैतिक नेता, कम सन्तान, लोकप्रिय प्रसिद्ध, उच्चप्रशासकीय पद प्राप्त करने वाला, कठोर, शठ, क्रूर, परिश्रमी एवं पराधीन होता है।

आपके जन्म काल में मंगल पंचम भाव में स्थित है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा परन्तु यदा कदा सामान्य रूप से शारीरिक रूप से व्याकुलता भी रहेगी। आपके प्रति उनके मन में स्नेह एवं सम्मान का भाव विद्यमान रहेगा। धन धान्य से वे युक्त रहेंगे एवं जीवन में सर्वप्रकार से आपको शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। वे सुख दुःख में हमेशा आपका सहयोग करेंगे एवं आवश्यकतानुसार आपको आर्थिक या अन्य प्रकार की सहायता भी प्रदान करेंगे। इसके साथ ही शिक्षा संबंधी कार्यों में भी वे आपको यथोचित सहयोग प्रदान करेंगे।

आपके मन में भी उनके प्रति पूर्ण सम्मान एवं स्नेह का भाव रहेगा। आपके परस्पर संबंध मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेद भी उत्पन्न होंगे जिससे संबंधों में अल्प समय के लिए कटुता या तनाव की अनुभूति होगी। साथ ही आप सुख दुःख में उनको आर्थिक तथा अन्य प्रकार के समस्त वांछित सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगे एवं आपसी सहयोग से एक दूसरे को सुख प्रदान करेंगे।

बुध

सातवें भाव में बुध हो तो जातक सुन्दर, विद्वान्, कुलीन, व्यवसायकुशल, धनी, लेखक, सम्पादक, उदार, सुखी, अल्पवीर्य, दीर्घायु एवं धार्मिक होता है।

कुम्भ राशि में बुध हो तो जातक कुटुम्बहीन, दुःखी, अल्पधनी, झगड़ालू, प्रसिद्ध निर्बल स्वास्थ्य एवं प्रगति करने वाला होता है।

गुरु

नवम भाव में गुरु हो तो जातक पराक्रमी, धर्मात्मा, पुत्रवान्, बुद्धिमान्, राजपूज्य, तपस्वी, विद्वान्, योगी, वेदान्ती, यशस्वी, भक्त, भाग्यवान् संन्यास की ओर प्रवृत्ति एवं प्रचुर सन्तान होता है।

मेष राशि में गुरु हो तो जातक ऐश्वर्यशाली, तेजस्वी, वकील, वादी, प्रसिद्ध, कीर्तिमान्, विजयी, उच्चभाव, धनी, विद्वान्, प्रचुर सन्तान, उदार, नम्रभाषी परन्तु अपने आपको दूसरों से उच्च समझने वाला, सुखी विवाहित जीवन एवं उच्चपद पर आसीन होता है।

शुक्र

नवम भाव में शुक्र हो तो जातक धर्मात्मा, राजप्रिय, पवित्रतीर्थ यात्राओं का कर्ता, दयालु, प्रेमी, गृहसुखी, गुणी, चतुर एवं आस्तिक होता है।

मेष राशि में शुक्र हो तो जातक स्वप्न जगत में विचारने वाला, आवेशपूर्ण स्वभाव, अस्थिरमन, दुःखी, बुद्धिमान्, आरामतलब, दुराचारी, परस्त्रीरत, झगड़ालू विश्वास हीन एवं अधिक खर्च करने वाला होता है।

शनि

पंचम भाव में शनि हो तो जातक आलसी, सन्तानयुक्त, चंचल, उदासीन, विद्वान, भ्रमणशील एवं बातरोगी होता है।

धनु राशि में शनि हो तो जातक व्यवहारज्ञ, पुत्र की कीर्ति से प्रसिद्ध सदाचारी, वृद्धावस्था में सुखी, सक्रिय, चतुर शान्तिप्रिय, दुःखी विवाहित जीवन एवं धनी होता है।

राहु

सप्तम भाव में राहु हो तो चतुर, लोभी, दुराचारी, दुष्कर्मी वातरोगजनक, भ्रमणशील, व्यापार से हानिदायक एवं स्त्रीनाशक होता है।

कुम्भ राशि में राहु हो तो जातक विद्वान्, लेखक मितभाषी एवं मितव्ययी होता है।

केतु

लग्न (प्रथम) में केतु हो तो जातक चंचल मूर्ख दुराचारी, भीरु तथा वृश्चिक राशि में हो तो सुखकारक, धनी एवं परिश्रमी होता है।

सिंह राशि में केतु हो तो जातक बहुभाषी, डरपोक, असहिष्णु, सर्पदशन का भय एवं असन्तोषी होता है।

दशा विश्लेषण

महादशा :- मंगल
(29/04/2025 - 29/04/2032)

मंगल की महादशा 29/04/2025 को आरम्भ और 29/04/2032 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 7 वर्ष होगी। इसके पहले आपकी चन्द्र की 10 वर्ष की महादशा चल रही थी। चन्द्र के अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण आपको अचानक धन की प्राप्ति, अप्रत्याशित विकास, रहस्य-विज्ञान में रुचि, सट्टे से लाभ और विदेशी स्रोतों से धन का लाभ हुआ होगा।

स्वास्थ्य :

इस दशा के दौरान आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप में दैनिक जीवन के प्रति आत्मविश्वास, साहस उत्साह की उत्पत्ति होगी। मौसमी बीमारियों को छोड़ आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप पित्तदोष, पाचन सम्बंधी गड़बड़ी, सरदर्द, ज्वर और कभी-कभी हृदयगति की गड़बड़ी से ग्रसित हो सकते हैं। किन्तु ये गम्भीर नहीं होंगे। आपका जीवन सामान्यतः ठीक रहेगा। महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना होगा।

अर्थ तथा व्यवसाय :

आपको सट्टे तथा लाभदायक निवेश से लाभ होगा। कभी-कभी खासकर मंगल की महादशा में आपका नुकसान हो सकता है, सावधानी बरतें। फिर भी विदेशी स्रोतों से आपकी आय होती रहेगी। इस दशा में आपका धन-संचय होगा। जीविका के लिए सिविल तथा मेकैनिकल इंजीनियरिंग, सैन्य सेवा, दवाओं का कारोबार, दन्तचिकित्सक का कार्य, खेल-सामग्री, ताम्बे और खनिज आदि का कारोबार लाभदायक हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों का परिवर्तन होगा और वह लाभदायक होगा। आप अपने कार्यस्थल में जाने जायेंगे, और आपको मान्यता तथा सहयोगियों और उच्चाधिकारियों से सद्भाव की प्राप्ति होगी। व्यवसायियों-व्यापारियों के कार्य में भी परिवर्तन और घर परिवर्तन लाभदायक होगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आपको कुछ कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। इस दशा के दौरान अप्रत्याशित प्रगति, अचानक धन की प्राप्ति और विदेशी स्रोतों से लाभ की सम्भावना है।

वाहन, यात्रा, जायदाद :

गुरु की अन्तर्दशा के दौरान आपको वाहन-सुख मिलेगा। इस दशा में आपको यातायात से लाभ होगा। जमीन-जायदाद के मामले उभरेंगे। चन्द्र की अन्तर्दशा में आपको कुछ अप्रत्याशित धन का लाभ हो सकता है। शनि की अन्तर्दशा में आपकी कुछ छोटी और मंगल तथा सूर्य की अन्तर्दशा में लम्बी यात्राएँ हो सकती हैं। आपकी विदेश यात्रा भी हो सकती है।

शिक्षा :

इस दशा के दौरान आपकी शिक्षा अति उत्तम होगी। तकनीकी शिक्षा, गणित, लेखा, इंजीनियरिंग, विज्ञान आदि का अध्ययन आपके लिए लाभदायक होगा। आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। शिक्षण-वृत्ति के मध्य कुछ लाभदायक परिवर्तन हो सकता है। आपका

नेतृत्व गुण सामने आएगा।

परिवार :

परिवार के सदस्यों के साथ आपका संबंध उत्तम होगा। आपके बच्चे आपके सुख व लाभ के स्रोत हो सकते हैं। आपके जीवन साथी को हर प्रकार का लाभ, विरोधियों पर विजय और उनसे लाभ हो सकता है। आपके साझेदार के साथ आपका सम्बन्ध उत्तम होगा। आपकी माता को लाभ और समृद्धि की प्राप्ति होगी और पिता की अचल सम्पत्ति, धन तथा यात्राओं में वृद्धि होगी। आपके छोटे भाई-बहनों को शक्ति, यश और ख्याति की प्राप्ति होगी और वे प्रगति करेंगे। आपके बड़े भाई-बहनों के लिए यह दशा लाभदायक होगी। आपके व्यावसायिक साझेदारों में आपके अनेक मित्र होंगे और आपको उनसे लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर यह दशा उत्तम है।

अन्तर्दशा :

मंगल की महादशा में मंगल की अन्तर्दशा के कारण लाभ तथा सन्तान से सुख मिलेगा। आगे राहु की दशा कुछ समस्याएँ खड़ी कर सकती है। चतुर्थ तथा लग्न के स्वामी गुरु की अन्तर्दशा के फलस्वरूप धन तथा सुख आरम्भ की प्राप्ति हो सकती है। शनि की अन्तर्दशा के कारण छोटी यात्रा और कुछ मामूली परिवर्तन हो सकता है जबकि बुध के फलस्वरूप साझेदारी में लाभ और जीवन में उन्नति होगी। आगे आने वाली केतु की अन्तर्दशा के दौरान कुछ मानसिक या शारीरिक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। शुक्र की अन्तर्दशा के फलस्वरूप कुछ स्वास्थ्य समस्याएँ और लाभ हो सकता है जबकि सूर्य की अन्तर्दशा के कारण समृद्धि की प्राप्ति तथा यात्रा होगी। चन्द्र की अन्तर्दशा के फलस्वरूप कुछ परिवर्तन होगा।

**अंतर्दशा :- मंगल - राहु
(26/09/2025 - 14/10/2026)**

आपके लिए मंगल की महादशा 29/04/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में दूसरी अंतर्दशा राहु की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 18 दिन होगी। आपके लिए यह 26/09/2025 को प्रारंभ होकर 14/10/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु भौतिक लाभ, परिवर्तन और लंबी यात्राओं का कारक है।

इस अवधि में आपके विदेशियों से व्यापारिक संबंध बन सकते हैं। शत्रुओं पर विजय होगी। विपरीत लिंग के लोगों से लाभ हो सकता है। जनसंपर्क बढ़ेगा। विवाह हो सकता है। विवाह से धनलाभ होगा। जीवन में खूब तरक्की होगी। आप साहसी और तीव्रता से निर्णय लेने वाले होंगे। सम्मान और उच्चपद का संकेत है।

आपके जीवनसाथी भाग्यशाली रहेंगे। आपके पिता धनार्जन करेंगे। माता अचल संपत्ति प्राप्त करेंगी; उनके धन में वृद्धि होगी। आपके भाई-बहन निवेश और सट्टेबाजी से लाभ कमा सकते हैं।

आपकी संतान को परिश्रम करना होगा। उन्हें कार्यों में सफलता मिलेगी। अगर से कार्यरत हैं तो खूब धन कमाएंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो आय में वृद्धि होगी। परामर्शदाता तरक्की करेंगे। व्यापारी धनी बनेंगे और अनुबंधों पर हस्ताक्षर करेंगे।

आपका स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम रहेगा। अरिष्ट से बचाव के लिए राहु मंत्र का जाप करें।

ॐ रां राहवे नमः

**अंतर्दशा :- मंगल - गुरु
(14/10/2026 - 20/09/2027)**

आपकी मंगल की महादशा 29/04/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में तीसरी अंतर्दशा बृहस्पति की होगी जिसकी अवधि 11 मास 6 दिन रहेगी। आपके लिए यह 14/10/2026 को प्रारंभ होकर 20/09/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बृहस्पति विवेक, संतान और आध्यात्मिकता का कारक है।

इस अवधि में आप धनी और प्रसिद्ध होंगे। अध्यात्म में रुचि होगी। मष्तिष्क का उत्थान होगा और प्रगति के अवसर आएंगे। दूरस्थ स्थान की यात्रा हो सकती है। शिशु का जन्म हो सकता है। शिक्षण, लेखन और प्रकाशन के लिए समय उत्तम है। समस्याएं सुलझेंगी; शांति बहाल होगी। परीक्षा में सफलता मिलेगी। वेद, तंत्र मंत्र आदि में रुचि हो सकती है।

आपके जीवनसाथी के परिवार से मधुर संबंध रहेंगे। आपके पिता प्रगति करेंगे, स्वास्थ्य और आर्थिक स्तर उत्तम होंगे। आपके भाई-बहनों का विवाह हो सकता है, अनुबंध पर

हस्ताक्षर कर सकते हैं, आय में वृद्धि होगी।

आपकी संतान को परीक्षा में सफलता मिलेगी।

अगर आप सेवारत हैं तो वांछित तबादला हो सकता है; साख में वृद्धि होगी। परामर्शदाताओं के खर्चे बढ़ सकते हैं। व्यापारियों को अधिक परिश्रम करना होगा।

आपका स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम रहेगा। शरीर के निचले अंगों में कोई व्याधि हो सकती है। शुभत्व में वृद्धि के लिए विष्णुजी की अराधना करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - शनि
(20/09/2027 - 29/10/2028)**

आपके लिए मंगल की महादशा 29/04/2025 को आरंभ हुई थी। इस महादशा में चौथी अंतर्दशा शनि की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 1 मास 9 दिन रहेगी। आपके लिए यह 20/09/2027 को प्रारंभ होकर 29/10/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शनि आयु, सेवा और पश्चिम दिशा का कारक है।

इस अवधि में आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। उच्चपद और प्रोन्नति का संकेत है। आप प्रत्येक कार्य सोच-समझकर करेंगे। निर्माणकार्य कर सकते हैं। शिशु का जन्म हो सकता है, संतान से सुख मिलेगा। सलाहकार के तौर पर कार्य कर सकते हैं। विवाह संभव है। वर्तमान व्यापार में स्थायित्व आएगा या नया व्यापार प्रारंभ करेंगे। सरकारी नौकरी वाले प्रसन्न रहेंगे। विदेश यात्रा हो सकती है। किसी अनुबंध (विशेषकर श्रमिक वर्ग से) पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

आपके जीवनसाथी को समृद्धि मिलेगी। पिता को सांसारिक सुख मिलेगा। यात्रा हो सकती है। माता को धन का लाभ होगा, पारिवारिक जीवन में स्थायित्व आएगा। भाई-बहनों को स्पर्धियों पर सफलता मिलेगी, वे किसी से साझा कर सकते हैं, यात्रा और विवाह संभव हैं।

आपकी संतान के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परीक्षा में सफल होंगे। उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। अगर वे सेवारत हैं तो कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो अवांछित तबादला हो सकता है। परामर्शदाताओं के जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है। व्यापारी धन कमाएंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पाचन तंत्र का ध्यान रखें। अरिष्ट से बचाव के लिए उड़द की दाल, काले तिल और सरसों का तेल दान करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - बुध
(29/10/2028 - 26/10/2029)**

आपके लिए मंगल की महादशा 29/04/2025 को प्रारंभ हुई थी। इसमें पांचवी अंतर्दशा बुध की है जिसकी अवधि 11 मास 27 दिन है। आपके लिए यह 29/10/2028 को

प्रारंभ होकर 26/10/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बुध वाणी, शिक्षा और सम्मान का कारक है।

इस अवधि में व्यापार में लाभ होगा। साझेदारों के साथ विचार-विनिमय बढ़ेगा। व्यापार से संबंधित यात्रा हो सकती है। विदेश भी जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में उत्थान होगा। किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। घरेलू सुख मिलेगा। ज्योतिष, कविता, धर्म और गणित में रुचि बढ़ेगी। संचार माध्यम और व्यापार में सफल हो सकते हैं। प्रसन्नचित्त और स्थिर बुद्धि वाले होंगे; बहुत से मित्र रहेंगे।

आपके जीवनसाथी कार्यक्षेत्र में सफल रहेंगे। आपके पिता धन कमाएंगे। माता की अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। उन्हें पुस्तकों से प्रेम होगा। भाई-बहनों को निवेश से और शिक्षा से लाभ होगा। उनकी यात्राएं हो सकती हैं, उच्चशिक्षा में रुचि होगी, धनी बनेंगे।

आपकी संतान को पत्र व्यवहार से लाभ होगा; जनता से संपर्क बढ़ेगा। अगर वे सेवारत हैं तो यात्रा, अनुबंध पर हस्ताक्षर, लेखन या प्रकाशन से लाभ का संकेत है।

अगर आप सेवारत हैं तो धन कमाएंगे। परामर्शदाताओं की समृद्धि बढ़ेगी। व्यापारियों को लाभ में बढ़ोत्तरी मिलेगी।

स्वास्थ्य का ध्यान रखना श्रेयस्कर रहेगा। अरिष्ट से बचाव के लिए गाय को चारा खिलाएं।

अंतर्दशा :- मंगल - केतु (26/10/2029 - 24/03/2030)

आपके लिए मंगल की महादशा 29/04/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में छठी अंतर्दशा केतु की है जिसकी अवधि 4 मास 27 दिन रहेगी। आपके लिए यह 26/10/2029 को प्रारंभ होकर 24/03/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी केतु नाना और मोक्ष का कारक है।

इस अवधि में आप उच्चपद प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक शांति, प्रसिद्धि और धनलाभ का योग है। अध्यात्म में रुचि हो सकती है। घरेलू सुख मिलेगा, संतान से खुशी मिलेगी। आप स्वभाव से मददगार हैं। किसी फैसले को करने से पहले गहन विश्लेषण करते हैं। आप साहस का परिचय देंगे। लाभकारी यात्राएं हो सकती हैं। व्यापार में लाभ होगा।

आपके जीवनसाथी को कार्यों में सफलता मिलेगी। आपकी माता की तीर्थयात्रा हो सकती है; उन्हें कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके भाई-बहनों के सम्मान में वृद्धि होगी। उन्हें सफलता और समृद्धि मिलेगी, बाधाओं को पार करेंगे।

आपकी संतान के पिता के साथ मधुर संबंध रहेंगे। अगर वे सेवारत हैं तो यात्रा हो सकती है; भाग्यशाली रहेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो कुछ परिवर्तन हो सकते हैं; अप्रत्याशित धन मिल सकता

है। परामर्शदाता स्पर्धियों पर विजयी होंगे; सुख-सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। व्यापारी धन कमाएंगे।

उदर रोगों से बचाव करें। अरिष्ट से बचाव के लिए शनिवार और मंगलवार को उपवास करें।

**अंतर्दशा :- मंगल - शुक्र
(24/03/2030 - 24/05/2031)**

आपके लिए मंगल की महादशा 29/04/2025 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अन्तर्दशा शुक्र की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 2 मास होगी। आपके लिए यह 24/03/2030 को प्रारंभ होकर 24/05/2031 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शुक्र सौंदर्य, कला और नफासत का कारक है।

इस अवधि में आप जीवनसाथी, संतान और मित्रों से सुख पाएंगे। प्रसिद्धि और धन का संकेत है। कुछ यात्राएं हो सकती हैं। सरकार से सहयोग मिलेगा। ज्ञानार्जन के लिए समय शुभ है। विज्ञापन जगत में सफलता मिल सकती है। अध्यात्म में रुचि होगी। भाई-बहनों से संबंध मधुर रहेंगे। ललित कला, नाटक आदि में रुचि होगी। उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे।

आपके जीवनसाथी को कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके पिता को सम्मान, प्रसिद्धि, उच्चपद, धन और सुखद घरेलू जीवन का संकेत है। माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा ; शत्रुओं पर विजय होगी। आपके भाई-बहनों को साझेदारी से लाभ होगा, विवाह हो सकता है, विभिन्न साधनों से धनलाभ होगा, इच्छाएं पूर्ण होंगी। आपकी संतान की शिक्षा उत्तम होगी ; परीक्षा में सफल होंगे। अगर वे सेवारत हैं तो धनी बनेंगे; निवेश से लाभ होगा।

अगर आप सेवारत हैं तो तरक्की करेंगे; सहकर्मियों से मधुर संबंध होंगे। परामर्शदाताओं के खर्चे बढ़ सकते हैं; यात्राएं हो सकती हैं। व्यापारी धन कमाएंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए लक्ष्मीजी की आराधना करें।